# फडणवीस ने कोविड-१९ संकट पर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोविड-19 संकट से निपटने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार मामलों को जाराप लगाया कि संस्कार मामला का कम दिखाने की कोशिश कर रही है और अधिक से अधिक जांच करने पर तवज्जो नहीं दे रही है। निचले सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा कि चिकित्सा खर्चे का कोई ऑडिट नहीं हुआ है और महामारी को लेकर कुप्रबंधन भी हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि इस साल मार्च में जब महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त हुआ था तब राज्य में कोविड-19 के रोगियों की संख्या थी। आज (कोविड-19



27,027 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 16,401 पुलिस कर्मी कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 162 ने दम तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव उकरे स्पर्फ मुंबई की कोविड-19 स्थित को देखते हैं, जबिक उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे में दिलचस्पी रखते हैं। क्या औरंगाबाद और नागपुर महाराष्ट्र में नहीं आते हैं? क्या आपने वहां की स्थिति की समीक्षा की और क्षेत्रों की

तक सभी फैसले केवल कागज पर ही लिए हैं जबकि जमीनी स्थिति अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार केवल कोविड-19 की संख्या को कम दिखाना चाहती है और अधिक जांच करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। हम कोविड -19 से निपटने में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, यह सरकार पर निर्भर हैं कि वह स्थिति की गंभीरता का एहसास करे। उपचार

की गंभीता का एहसास करे। उपचार गंधेनेकांल को समीक्षा करने की आवश्यकता है और इस तरह के उदाहरण है कि कोरोग संक्रमण से टीक हुए लोगों में दुष्णमाव देखे गए हैं भाजपा नेता ने कहा, सस्कार को यह समझना होगा कि वायरस के इसार के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। कोविड-19 देखभाल केंद्रों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं

साधा। किसानों का मुद्दा उठाते हुए फडणवीस ने कहा कि किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सरकार ने बीजों की कमी जैसी उनकी समस्याओं से आंखें मूंदी हुई हैं। समस्याजा स आख मूदा हुई हा किसानों को अपनी उपज का बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है और फसल बारिश में क्षतिग्रस्त हुई है। सरकार सिर्फ नौकरशाहों के तबादले में रुचि रखती है। स्थानांतरण

के लिए प्रशासनिक खर्च 500 करेड़ रुपए है। क्या महामारी के बीच नौकरशाहों का तबादला करना जरूरी था? फडणवीस ने सरकार से कहा कि वह मेटो कार शेड को आरे कॉलोनी वह मंद्र कार राड का आर फाराना (मुंबई का हरियाली क्षेत्र) से पहाड़ी गोरेगांव ले जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे। सरकार को लोगों के लिए काम करना चाहिए ना की अहम

### कंगना की टिप्पणी पुलिस के मण में विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस अपमान बराबर : फर्डणवीस

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने अभिनेता वारण्ड नता दबद्र फडणवास न आभनता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के संदर्भ में अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा कस्ते हुए इसे पुलिस बल के अपमान के बराबर बताया। रनौत ने वल के जपनान के बराबर बताबा रिसात न हाल में कहा था कि उन्हें मूवी माफिया से अधिक डर मुंबई पुलिस से लगता है और वह हिमाचल प्रदेश या केंद्र सरकार से सुरक्षा लेना चाहेंगी।

ता एरना यालना । विधानसभा के पटल पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष फडणवीस ने कहा कि वह मुंबई पुलिस की क्षमता को जानते हैं क्योंकि उन्होंने पांच साल तक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव में आ सकती है। फडणवीस ने यह भी कहा कि चंकि राजपत की मौत के मामले को कि यूफ रेजपूर की मार के मानल की जिस तरह से संभाला गया वह गलत था, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी गई। मुंबई पुलिस द्वारा मामले की जांच का

बैल मुझे मार का बेहतरीन मामला है। भाजपा दारा इस मामले की सीबीआई जांच भाजपा द्वार इस मामल को सोबीआई जाव की मांग किए जाने से मुंबई पुलिस का मनोबल गिरने के संबंध में शिवसेना और अन्य सत्तारूढ़ पार्टियों के आरोपों को खादिक करते हुए फडणबीस ने कहा कि कई विधायकों ने भी समय-समय पर पुलिस के खिलाफ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, यहां तक कि मुख्यमंत्री उद्धव टाकरे ने भी कल्याण की रैली के दौरान कहा था

कि पुलिस केवल वर्तन मांजने में सक्षम है। गौरतलब है कि सौत द्वारा हाल में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले क्समीर (पीओक) से करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के नेता मुखर हो गए हैं और भाजपा पर कंगना का कथित तौर पर बचाव करने के लिए निशाना साथ रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि बिना र है। फड़जवास न जान फहा कि विना सम्मान के मुख्यमंत्री का संदर्भ देना गलत है। उन्होंने कहा, हम विपक्ष में हैं, लेकिन उद्धवजी हमारे मुख्यमंत्री हैं।

# सभी २७ सीटें जीतेगीः कमलनाथ

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनावों में सभी 27 सीटों पर विजय हासिल करेगी। ग्वालियर में भाजपा नेता



करंट लगने से हाथी की मौत पलवकड़। केरल के वांजीवोड़ में एक जंगली सथी वी धान के खेत में करंट लगने से मौत से गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह संदेह है कि जंगर्ल

. दाशी तालती से शाल के खेत के पास तिर्रे तार ते जंगली हाथी इस क्षेत्र में अक्सर घूमते रहते हैं।

संवाददाताओं से कहा, मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। मुझे राज्य के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। जिन 27 सीटों पर उप चुनाव होने ग्रथ्य के मत्तवताओं पर पूज परिता है। जिन 22 सीठों पर उप चुनाब होने, वहां मतदतात कमत्तवाथ या कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकते हैं लेकिन वे अवस्य सच्चाई का समर्थन करेंगे। कमत्तवाथ ने कहा कि सर्वेश्वण सिटी चतुंच हो अच्छी हैं और हम चिंतित नहीं हैं। हम सभी मेरि चीतों अतीने कहा कि बच्चे से स्वाध्या में भाषण आवर्षकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, न केवल अनता, बल्कि भावण कांग्रेकता में ग्राम्स हो हो हैं। उन्होंने कहा, न केवल अनता, बल्कि भावण कांग्रेकता में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, न केवल अनता, बल्कि भावण कांग्रेकता में शामिल हो रहे हो प्रमुख नागरिकों का एक समूह कांग्रेस में शामिल हुआ था। कांग्रेस के 25 विधायकों के तथाणपत्र और दो विधायकों के निभन के कारण प्रदेश विधानसभा चीति स्वतापत्र और दो विधायकों के निभन के कारण प्रदेश विधानसभा चीति स्वता हुई 27 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होने हैं हालांकि चुनाव आयोग ने फिरतहाल उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है।



### कांग्रेस विधायक ने शीर्षासन कर विरोध प्रदर्शन किया

**मध्य** प्रदेश में श्योपुर जिले में प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस वे (चंबल एक्सप्रेस वे) अटल प्राप्तस व (चबल एक्सप्रस व) के लिए भृमि अधिग्रहण के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी किसानों से ज्ञापन लेने कलेक्टर के स्वयं नहीं आने पर कांग्रेस के विधायक बाबू सिंह जंडेल ने शीर्पासन कर किरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव ने दावा किया, मैं ज्ञापन लेने गया था। यह घटना सोमवार शाम को हुई जब कांग्रेस विधायक जंडेल बड़ी संख्या में अपने ज्ञापन लेने भेजा। इससे विधायक समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय में जंडेल और उनके समर्थक और नाराज् विधायक जंडेल बडी संख्या में अपने जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर-ए-

जापन देने गए। वह अटल प्रोग्नेस वे के क्षापन देन गर्। यह अटल आग्नस य फ लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में चार गुना मुआवजे, मुजहरी बांध का निर्माण और किसानों से एमएसपी पर खरीदी गई गेंहूं की फसल के लिए बोनस देने की मांग कर रहे थे। विधायक जंडेल का मान कर रह था विवायक जडल उस समय नाराज हो गए जब कलेक्टर ने कथित तौर पर परिसर में प्रदर्शनकारियों के पास आकर ज्ञापन त्रदेशनकात्मा के पास जाकर जापन लेने से इंकार कर दिया और उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) रुपेश उपाध्याय को प्रदर्शनकारियों से

हो गए। इसके बाद, कांग्रेस विधायक आकर्षित करने के लिए शीर्षासन कर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक और किसानों ने दो घंटे तक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर कार्यालय की दीवार पर अपना जापन चिपकाकर वापस चले गए। जंडेल ने संवाददाताओं से कहा, हमने दो घंटे तक कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया, लेकिन जिला कलेक्टर किसानों के बीच ज्ञापन लेने

## सिंह लिखा जाये, क्योंकि डी.बी. सिंह और दुखभंजन सिंह एक ही व्यक्ति हैं।



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नामः जगत बहादुर सिंह, पुत्रः रव. श्री शिव प्रसाद सिंह, पताः नकान नं. 1095, गली पीपल वाली, ईदगाह रोड, मोतिआ खान, दिल्ली, जोकि

नाम परिवर्तन

मैं, हरप्रीत कौर सुपुत्री श्री दुखमंजन सिंह, निवासी–77/ए, अर्जुन नगर (शांति निवास), नई दिल्ली–110029, बताती हूँ कि मेरे पिता के दो नाम –

दुखमंजन सिंह और डी. बी. सिंह हैं। मेरे आगे के सभी रिकॉर्ड्स, सर्विस बुक

आदि में, मेरे पिता का नाम दुखभ

वाली, ईदगाह रोड, मोरिआ खान, दिल्ली, जीकि दिनांक 17.08.2020 से से थाना सदर बाजार, दिल्ली से अपहर्त/लापता है। इस संवर्ध में DO 0.038A, dated 27.08.2020 को थाना स्वंद बाजार, दिल्ली में अपहर्त/लापता है। उस संवर्ध में 30 प्रतार, करने 5 पुर 5 इंप, पेक्सर लामा, रोड ने सात कर 5 पुर 5 इंप, पेक्सर लामा रंग गोरा, तात छोटी काले व में की धारीधार कमीज, काले संग की परिचार कमीज, काले संग की पैन्द और कार्य इस प्रवार के बावजूद अमी तक इस व्यक्ति कोई सुराग नहीं मिन पाया है। जिस व्यक्ति के पास इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकरों है तो सुम्या निम्नलियित पर सुम्बित करें। वेदसाइट: http://bbl.nic.in

वंशाहट: nttp//cbi.nic.in ई—मेल - cic@cbi.gov.in फोनः 011-24368638, 24368641 फैक्स नं. 011-24368639 DP/518/N/2020 फोन नं.: 011- 23512411, 875087012**4** 

#### उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष भगत को मिली अस्पताल से छुट्टी

देहरादून। कोविड-१९ से पीडित होने के कारण दून अस्पतल में भर्ती उत्तराखंड भाजपा अस्यथ बंशीधर भगत को मंगलवार को सुटटी दे दी गई लेकिन वह फिलड़ाल अपने घर में पृथकवास में रहेगे। भगत कुं 30 अगस्त को दन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष देवेद भरीन ने नत्त्वय . 30 अशन व दूर ता प्रवास्थालय न नावा व्ययम नाव वा प्रदन नामा आर प्रतन नामा आर प्रतन है। मिंग दिनों के पृथ्वव्यास के वैज्ञन नामा देशका है। यह अपने मान प्रतने नो लेक्न डॉक्टर वी स्लाह के अनुसार वह विश्वी से नाहीं मिलीगे। अस्पताल से सुद्दी मिलाने के बाद मान वो कहा कि होगे। आरोविंद से वह अस्पताल से संयुक्तल वापस आ गए हैं और मल्द ही वह सबके समार हामिर होगे।

गिएनबी फाइनेंस एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

टेक्नो इलेक्ट्रिक एँड इजीनियरिंग कम्पनी विभिटेड पीकाएँचः एक्काव्यक्षिणकार्थाण्यकीकार्धक पंजी कर्यावयः भी-उत्त मुद्र तर्गरः प्राप्त कर्यावयः भी-उत्त मुद्र तर्गरः प्राप्त प्रदेश, पाया-उठाठम, भी नंबरः (१९४२)-उठकठ०० दिर कार्यावयः । शी. पार्च च्याव, पाया-वर्षकः मृत्र स्वर्षकः हो। पोर्च नंबरं (१९९४)-१००३०००, भेचनं चंचः (१९४१)-१०००००० भोनां नंबरं (१९९४)-१००३०००, भेचनं चंचः (१९४१)-१००००००।

15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग एवं बही बंदी के संबंध में जानकारी

देवार पूरा दी जाती है कि देखा होताहुक है व इतीवियार कमती तित्र तित्र क्षेत्र इतीवियार कमती ति ता सार्विक सामय किंद्र कुपारिकारिय कमती ति ता सार्विक सामय किंद्र कुपार कि सिम्पर, करने के स्टाटक के बेर स्टाटक को ति हो किंद्र कुपार कि सिम्पर, करने के स्टाटक के किंद्र कुपार के सिम्पर के सि

क्षण्यस्थ्यपणात्मुद्धाराय्याणा १९ मा प्रवस्ता होगा। दिन है :अविधियन की मारा 100 तमा क्या ताग ति कि :अविधियन की मारा 100 तमा क्या ताग प्रमानार्गे, मारे कोई, कम्परी
विध्यानार्वत 2004, तमा प्रमान पर्या पार्वा पर्याचे, के निवार 20 के साम प्रतिद् पूर्विकल्प विधियानार्वती के विभिन्न 44 के अनुसरण में, कम्पती होता विकेक में निमार्वति किए पार्च गांत त्यावतार्थी के संबंध में अव्याच गांत दुनेते हेतु साम बनाने के लिए पिनोर्ट ई-वोटिंग तमा एलीएम के दीवार है कर्म साम करने के लिए पिनोर्ट ई-वोटिंग तमा एलीएम के दीवार है

#### केमेक कमर्शियल कम्पनी लिमिटेड

(सीआईएन : एतराठा००शीएता१८०थीएतसी१८७३18 पंजी. कावांतल : प्रथम तत्त्र, एक्शयेस विविद्धन, 9-10 बहादूर शाड करण मार्ग, वह दिल्ली - 110002 L: 7303465374, ईं-मेल : camaccommercial@gmail.o वेबसाइट : www.camaccommercial.com

### हो (इंडिया) लिमिटेड

र्एन : एल25199डीएल1980पीएलसी010173) कार्यालय:-2/8, रूप नगर, दिल्ली-110007 ww.cosco.in ई-मेल:-mail@cosco.in +⊎1-11-23843000, फैक्स: +91-11-23846000

बीएसई व्यापार प्रतीकः-CO4SCO 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट -वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी की सूचना

ई—सोटिंग जानकारी तथा वहीं बंदी की सूचना एदाता पूचन दी जाते हैं कि कॉस्को (हिरोण) जिमिटेड किम्मर्ग) के सदस्त्रों के शर्ता वार्षिक सामान्य बैठक (स्थीरण) सूचार, 20 विशायर, 2020 को जर. 02.20 वर्श वीडियो कॉन्डिमिंग (मीवी)/अच्या जीवियो (बिट्टाम) नीय (कोर्याएम) के सामान्य से रोपारक में करने हैं सुवासीतित की जाएगी। एदोरस का आयोजन कम्मी जीविम्मर, 2013 के प्रात्मानों तथा कार्योद मंत्रातय द्वार जारी स्कृतित दिनावित 5 मई, 2020, 13 अर्थेन, 2020 तथा क कार्येन, 2020 जोर वैसे कुंद्रिस दिनावित पर मई, 2020 के उद्यापन में, केवत सीवी/अपीएंग के मान्य में क्रिया आराण। एदोरां के लिए परीची की निश्चीक हैंनु सुवित्त परवास मंदि सीत पर्योग दे ने इंट्रोइनिक सिंग में मान्य ने ते हैंनु कुंद्रिस परिपार में देश मान्य सिंग एदोरां से नं इंट्रोइनिक सिंग में मान्य ने ते हैंनु कुंद्रिस एदोरां को स्था कम्मी क्रां एदोरां को यूचना तथा वार्षिक शियोर 2019-20 कंदल हरोस्ट्रिक मोल क्षेत्र स्वतास्था को भेजी या चुकी हैं, दिन्यता ई—ते या कम्मी क्षां से स्वतास्था अफ्लाकटकारी मार तथा स्वतास्थ कर एक स्वतास कार्या से स्वतास्था अफ्लाकटकारी मार तथा स्वतास्थ कर एक स्वतास कार्य स्वतास्थ से स्वतास्थ अफ्लाकटकारी मार तथा स्वतास्थ स्वतास्थ स्वतास्थ से से स्वतास्थ अफ्लाकटकारी मार तथा स्वतास्थ स्वतास्थ स्वतास्थ से से स्वतास्थ अफ्लाकटकारी कारण में मार स्वतास्थ स्वतास्थ स्वतास्थ की स्वतास्थ की स्वतास्थ सिरायस्थ कारण क्षां कारण हैं और स्वतास्थ स्वतास्थ से क्षां स्वतास्थ स्वतास्थ कारण कि क्षांस्थ स्वतास्थ स्वतास्थ की स्वतास स्वतास्थ की स्वतास कारण की क्षांस करनास्थ स्वतास्थ स

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीबद्ध नहीं करवाया है और उसके फतर एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-चोरिन अनुदेश प्राप्त नहीं हुए ! अपना ई-नेल पता और मोबाइन तंनर इतेन्द्रशिक कोरियों के मानले में, कम्प रिजरद्वार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, स्काईलाइन काइनैशियल सर्विसोज प्राइवेट लिं

क्रट कोर के दानों गोजक उरहा सकते हैं, साकि एसीएम की सुमना, सामिक रियोर क्रामा के नार्योप का क्रिये के स्वाप्त के सामिक रियोर क्रामा के सामिक रियोर के सामिक रियोर क्रामा के सामिक रियोर के सामिक रियोर क्रामा क्रामा के सामिक रियोर क्रामा क्रामा क्रामा के सामिक रियोर क्रामा क्रामा क्रामा के सामिक रियोर क्रामा क्

निदेशक मंडल के आदेश द्वा वास्ते कॉस्को (इंडिया) लिमिटे



तैयबा से जुड़े तीन आतंकवादी गिरफ्तार

उनके पास से एक हथगोला समेत अन्य वस्तुएं बरामद हुईं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को जानकारी मिली थी कि लश्कर-ए-तैयबा के सिक्रिय आतंकवादियों के इशारे पर कुछ शरारती तत्व उत्तरी कश्मीर के हाजिन क्षेत्र के मुख्य बाजार में पाकिस्तानी झंडे फहरा रहे हैं। डर का माहौल बनाने तथा हाजिन ज्स्बे के आम लोगों में राष्ट्रविरोधी

भावनाएं पैदा करने के इरादे से झंड फहराया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मामला दन करक जांच शुरू कर दो। जांच के दौरान मुजीब शम्स, तनवीर अहमद मीर और इन्तियाद अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया। सभी हाजिन के मीर मोहल्ला क्षेत्र के रहनेवाले हैं। अधिकारी ने बताया कि इन तीनों ने स्वीकार किया कि वे इस घटना में शामिल थे। इनके पास से एक हथगोला और झंडा तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला कपडे का एक टुकड़ा, एक सिलाई मशीन और अन्य चीजें बरामद हुईं।

#### अपहृत/गुमशुदा की तलाश



# **Sebi notices to CG Power** over diversion of funds

Audit points to financial irregularities perpetrated by certain directors, related entities

he Securities and Exchange Board of India (Sebi) has sen notices to CG Power and Industrial Solutions Ltd after a forensicaudit ronfirmed that funds were diverted from the company. The forensic audit commissioned by BSE was given to the company for comments on 4 Sentember, the comments on 4 September, the company said in a stock exchange

comments of a September, true
company said in a stock exchange
filing on Tuesday.

"According to notices sent by
Seli, certain directors, employees of
G Power and related entities had
perpetrated financial irregularities
in the company. These include use
of certain assets of the company as
collateral, including being co-borrower and/or guarantor, for enabling third parties to obtain loans
without authorization," said a person familiar with the matter.

The resolution of these allegations is important for the company
asis current labilities exceeded its
current assets by 12,788,98 crore, as
of 30 June. The company is in the
process of implementing a debt resolution plan and entered into a securities subscription
agreement with
Murngappa Group

The resolution.

agreement with Murugappa Group company Tube Investments India

Investments India for Ga in Habilities and Lift for an infusion of CRO cross the ballities and the for Ga in Habilities and the format in t



According to notices sent by Sebi, certain directors and employees of CG Power had used company assets as er to enable third parties to obtain In March 2020, Sebi passed a

In March 2020, Sebi passed a confirmatory order refusing to lift the capital market ban imposed on Thapar and the three others but allowed them to liquidate up to 25% of the value of securities held by them in the company.

"Pursuant to the

interim order of Sebi, BSE had

appointed a forensic auditor to verify the books of accounts,

former directors Madhav Acharya and B. Hariharan. Sebi had held that certain transactions are prima facie "designed to divert/siphon off money from CG Power, which rightly fully belonged to its share-holders".

THE resolution of charges is important for CG as its liabilities usception deal with exceeded its assets by \$2,798,98 c an airlusion of \$800 c r an infusion of \$800 c r and \$800 c r an port spent s

Thaparand the three other officials have been refuting these allegations as they say that Sebi's interim actions were based on a biased report commissioned by the

Sebi on 4 September 2020," said CG

Sebion-4-September 2020, saidCG
Power in the exchange filing.
"The company has also received follow up notices from Sebi in relation to investigation initiated by them and the company has provided the required information," it said.
The statutory auditor of CG
Power, SRBC and Co. Llp, in its

report for June quarter earnings said that it is unable to determine the that it is unable to determine the potentialimpact of non-compliance with laws. The so-called fund diversion is being probed by Sobi, the Serious Fraud and Investigation Office and the Enforcement Direct orate. The income tax department has also issued notices and is seeking explanations from the company, "GG Power is also seeking permission from Seb ito share the report with statutory auditor," it said.

### Muted demand means airlines unlikely to utilize 60% capacity

Indian airlines may not rush to utilize up to 60% of their capacity as allowed by the government as customer bookings continue to remain subdued despite a rebound since May, said airline officials. Most carriers planto gradually increase capacity to 60% of pre-covid levels only by Diwali, which falls in November this year, hoping that the market recovery will accelerate by then. The government had earlier this month allowed airlines to sellseats up to 60% of their seat capacity on domestic flights. "Certainly, there has been a

of their seat capacity on domestic flights. "Certainly, there has been a gradual increase in demand since May, but is it enought to deploy 60% of pre covid-19 capacity right away? I would say no." said a senior official at a budget airline, on condition of anonymity. "We are hoping for demand to pick up during the festive season. We can deploy more capacity then," the official added.
Indian carriers posted a 25%

added.
Indian carriers posted a 25%
sequential rise in domestic
passenger traffic in August
from July, though it plunged
77% from the year-ago period
because of covid-19 disruptions, rating agency tensaid in
a report on Monday.
Passenger load factor, or the
number of seats filled in anairemit in over a control to a control for

craft, improved to about 63% in August for domestic air-lines, from about 55% in July,

lines, from about 55% in July according to the Icra report. This is a far cry from the 80-90% passenger load factor in the same period last year. Latest data from the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) showed domestic air traffic in July grew to 2.1 million, slightly more than June's 100 stilling passengers.



Year-on-year, passenger traffic in July fell 82.3% when airlines carried 11.9 million passengers. IndiGo, India's largest air-

line, operated by InterGlobe Aviation Ltd, is also betting big on the festive season to revive passenger demand following an increase in flight bookings as states eased travel restric-

tions.
The airline is seeing its passenger load factor reach close to 70%, Wolfgang Prock-Schauer, president and chief People

operating officer of the airline, said

operating onter of the airline, said in an interview last week. However, pep lear estill wary of making longer to be a complete or booking street me advance bookings due to frequently-changing travel curbs in states, he added. Both IndiGo and rival Spico-Jetar operating at about 40% capacity, according to spokespersons at the no-frills airlines. "We are operating at about 40% capacity at present with a view to increasing to 60% in the coming weeks, subject to airport readiness, demand and commercial viability, etc." a Vistara spokespersons said.

Air India is gradually scaling up its operations, and is oper-ating about 210 daily flights currently, said an airline

spokesperson.

Spokespersons of AirAsia
India and GoAir declined to

India and GoArr declined to comment.

Sustained increase in demand, beyond the festive season spike, to 60-70% of pre covid-19 levels will be possible only when quarantine rules are eased and fear of the virus reduces in the minds of people of the covid Spring of Spring Covid S

n the minds of peo-ple, said Sanjiv Kapoor, former chiefstrategy and commercial offi-cerat Vistara, and former chief operating officer at SpiceJet. "I also feel any airline in India that guarantees eats blocked, like People are still wary of making
long-term
advance
bookings due to
frequent changes
in travel curbs

what Delta Airlines and South-west in the US are doing, for say a ₹500 premium on fares

say a 5500 premium on fares for all passengers, may do very well." Kapoor said.
"What is lost in passenger load factor by capping loads at 66% may be more than made up by higher demand for those airlines from those who would prefer the middle seat to be empty, and higher resulting overall is idd." be actived. overall vield," he added.

### Mumbai realty cos bank on festival sales ByteDance doles out bonuses to pacify staff

Property developers in the Mumbai Metropolitan Region (MMR) are hopeful that awaiver ofstamp duty and the festival season will boost demand for new homes, especially in the affordable segment.

While home prices are expected to drop 10-25% from October onwards, developers and consultants said this will help a stagnant market to

help a stagnant market to finally gain traction. On 16 August, the Maha

On 16 August, the Maharashtra government announced a cut in stamp duty on buying new homes to 3% from 1September to 3I Decem-ber, and to 2% from 1 January 2021 to 31 March 2021 to boost market sentiment

Prior to the decision, stamp duty charges were 5% in Mum-



Home prices are expected to decline by 10-25%

bai, Pune, Nagpur and Nashik, and 6% in others.

"While the first few months of covid had its impact on the residential property market, the industry is starting to recover as demand returns from earlier fence-sitters," said Gaurav Sawhney, president -sales and marketing, Piramal Realty. "The festive season will

act as a stimulus to homebuy-ers. We expect many end-us-ers to finalize on their decision of buying an apartment during

ofbuying an apartment during the next couple of quarters." Property prices in Mumbai and MMR have performed the worst globally in the past year. A July study of 28 of the most the real expensive real estate markets in the world

world showed that res dential property prices in Mumbai

prices in Mumbal saw the steepest fall in value.
According to the Savills Prime Index World Cities H1 2020, homes in Mumbai lost 13.7% of their value in the year to June, and 5.8% of their value in the first half of 2020. half of 2020

Even though it has only been a week since the stamp duty waiver, Bhavin Thakker,

managing director (Mumbai). Savills India, said the real estate consultancy firm is already seeing an increase in enquiries, particularly in the affordable housing segment (₹50 lakh to ₹1.5 crore).

50 lakh to ₹1.5 crore).

"Since the reduction is for a limited period of time, customers have to respond quickly," Thakker said. "Overall, we

recover as demand returns expect a positive impact on sales during the festival from fencesitters, said an industry expert

expert season, especially since the prices have further reduced post-lockdown in the range of 10-25%. According to Rohit Poddar, managing director at Poddar Housing and Development Ltd., customers are coming beach to see the present the second to the process of the process the process of th back to assets like property as they are looking at the security

ikTok's Chinese parent has declared a rare half-month's salary bonus for employees, hoping to calm a 60,000-plus workforce across the globe as negotiations around the sale of the video ser-vice's US operations approach the Tyump administration's

ByteDance Ltd will dole out the bonus this month to reward employees at a time of unprec edented economic and social edented economic and social upheaval, the company said in an internal memo seen by Bloomberg News. While the Beijing-basedstartup is known for paying lavishly to poach experts in critical fields such as artificial intelligence, it's unuhandout in the middle of the year. A ByteDance representa-tive confirmed the memo.

tive confirmed the memo.
"Over the past few months,
we have been working together
to overcome challengesposed
by the pandemic and changing
environment," Byte Dance said
in its memo. "To thank everyone for their efforts and dedication, we will be issuing a cash

said, adding that any full-timer who's worked 26 days between July I and August 31 qualifies.

July I and August 31 qualities.
Byte Dance's move contrasts
with belt-tightening across
scores of startups from Singapore's Grab to India's Oyo. It
echoesa handout from Huawei
Technologies Co. in 2019,
another Chinese company in
Washington's cross-hairs.


# Japan's economy shrinks by record 28% in Q2

apan's economy shrank at

apan's economy shrank at a record, even worse rate in the April-June quarter than initially estimated. The cabinet office said Tuesday Japan's seasonally adjusted real gross domestic product contracted at an annualized rate of 28.1%, worse than the 27.8% figure given last more product to the contraction of the contr

given last month
The coronavirus pandemic,
which has people staying
home, restaurants and stores
empty or closing, and travel
and tourism nose-diving, has
hurt all the world's economies
and many companies. But if
has slammed Japan's exportreliant economy.
Restoring growth will be a
priority as the country me, and the priority is a be country me. given last month.

priority as the country pre-pares to choose a new leader to replace Prime Minister Shinzo



Abe, who is resigning for health reasons. A vote among governing party members is expected next week.

Other data released Tues day showed cash earnings improving somewhat, and consumers pending and other business activity is expected to rebound following the sharp drops as the country sought to

Quarter-on-quarter, the economy contracted 7.9%, according to the revised fig-ures, down from 7.8% in the preliminary data.
The annual rates hows what the number would have been if continued for a year.
The previous worst con-traction, a T.8% drop, was in the first quarter of 2009 dur-ing the global financial crisis. But anecdotally the latest drop

But anecdotally the latest drop is considered the worst since

World War II.

Japan had already slipped into recession in the first quarter of this year, contracting by an annualized 2.3%. It shrank 7% in the final quarter of last

Domestic tracted even year's second vate investme demand, driv

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Notice is hereby given that 40° Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 10,15 AM or Webbessig, September 30, 2000 through Video Company will be held at 10,15 AM or Webbessig, September 30, 2000 through Video AGM in complaince with the applicable provisions of the Companies AGI 2013 and nulei farmed thereunder and the SEBI Liging Obligations and Declosure Required and the SEBI Liging Obligations and Declosure Required Regulations, 2015 read with general read with General Circular No. 14/2020 dated April 08 2020, General Content No. 14/2020 dated April 08 2020, General Content No. 14/2020 dated April 08 2020, General Content No. 14/2020 dated May 5 2020, and other applicable crotians issued by the Suite of Companie Affairs searchly with Securities and Echaniega Beneral of India (SEBI Contain), without the physical presence of the members at a common versus.

The Company have serelectricin of the role of the AGI and the Annual Report of 2019-20 and september 08, 2020 Through Electricin modes. This communication and the notice of the AGI and the Annual Report of 2019-20 and september 408, 2020 Through Electronic modes. This communication and the notice of the AGI and the Annual Report of 2019-20 and september 408, 2020 Through Electronic modes. This communication relating to terrotic evolution, literally containing user D and passwort that communication relating to terrotic evolution, literally containing user D and passwort than communication relating to terrotic evolution, literally containing user D and passwort than communication relating to terrotic evolution, literally containing user D and passwort than communication relating to terrotic evolution, literally containing user D and passwort than communication relating to terrotic evolution, literally containing user D and passwort than communication relating to terrotic evolution of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies Act, 2013 and website: www.camacoommercial.com NOTICE s hereby given that 40" Annual General Meeting (AGM) of the mer ry will be held at 10,15 AM on Wednesday, September 30, 2020 th

PNB Finance and Industries Limited

No. - 1659/2010, 1947/FLC001240: Websites - www.pstimanceandindustries.com
Regd Offices - 1" Floor, Express Bubling, 9-10,
Bubling offices - 1" Floor, Express Bubling, 9-10,
Bubling offices bubling and the bubling offices of the state of the

circulars issued by the Minnistry of Corporate Affairs (YMCA conclairs) and Circular no.

SEBENIC/CEPLOWIC/REP20007/6 and bull you 12, 2020 assets by the Securities and Exchange Board of India's YSEB Circular), without the physical presence of the India's Affairs of the Corporation of the Corporat